

भा.वा.अ.शि.प-वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान में आयोजित

हिन्दी कार्यशाला का रिपोर्ट

भा.वा.अ.शि.प-वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर में राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रगति पाने के लिये प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 14 मार्च 2023 को इस संस्थान में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कनिष्ठ अनुवादक श्रीमती पूंगोदै कृष्णन ने कार्यशाला में उपस्थित सभी सहभागियों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यशाला में “दिन-प्रति-दिन के कार्यों में राजभाषा का प्रयोग” विषय पर चर्चा की गई। इस विषय पर चर्चा करने के लिये डॉ.पि.बालमुरुगन, वरिष्ठ प्रबन्धक (राजभाषा), बैंक ऑफ बड़ौदा, कोयम्बतूर को आमंत्रित किया गया था।

सर्वप्रथम इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना स्व परिचय देकर इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। डॉ.ए.सी.सूर्य प्रभा, वैज्ञानिक-डी एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने मुख्य अथिति एवं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया। उसके बाद संस्थान के निदेशक डॉ.सि.कुञ्जिकण्णन महोदय जी ने हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और सरकारी कर्मचारी होने के नाते राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए सभी को दिन-प्रति-दिन के कार्य में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिये। आगे अपने अनुभव द्वारा जीवन में हिन्दी सीखने के महत्व को विस्तार से बताया। कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा का प्रयोग करने का अनुरोध किया।

मुख्य अथिति डॉ.पि.बालमुरुगन, वरिष्ठ प्रबन्धक (राजभाषा), बैंक ऑफ बड़ौदा, कोयम्बतूर ने कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए कार्यशाला में उपस्थित सभी कर्मचारियों से प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा का प्रयोग करने में होने वाली व्यवहारिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। आगे कहा कि तमिलनाडु जैसे अहिन्दी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग करना कठिन है लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके राजभाषा का प्रयोग कर अपने कर्तव्य को निभाना चाहिये और राजभाषा विभाग द्वारा दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने में

अपना सहयोग देना चाहिए। राजभाषा के प्रयोग को सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विकसित लीला प्रवाह एप और ई-महाशब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य अथिति ने सभी के द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी के समस्याओं का समाधान किया।

यह कार्यशाला सभी को उपयोगी रहा। अंत में राजभाषा के नोडल अधिकारी श्रीमती के.शांति, मुख्य तकनीकी अधिकारी ने सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यशाला को सम्पन्न किया।

कार्यशाला के कुछ चित्र

